



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 616) पटना, बुधवार, 24 अगस्त 2022

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

11 अगस्त 2022

सं० 02/रेगु०-2-800-16/2020-1492—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 की धारा-31(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, गिरिवर दयाल सिंह, ईखायुक्त, बिहार, पटना द्वारा पेराई सत्र 2022-23 से पेराई सत्र 2026-27 के लिए ईखापूर्ति हेतु गन्ना क्षेत्र के ग्रामों को मेसर्स **हरिनगर सुगर मिल्स लि०**, हरिनगर, पश्चिम चम्पारण के साथ परम्परागत रूप में आरक्षण से संबंधित प्राप्त प्रस्ताव पर सभी संबंधित चीनी मिलों के प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय ईख पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधितों के समक्ष दिनांक-10.08.2022 को सुनवाई की गई। विभागीय आदेश संख्या-1584 दिनांक-20.09.2017 के माध्यम से पूर्व में पेराई सत्र 2017-18 से 2021-22 तक के लिए इस चीनी मिल के लिए 49 ग्रामों का **परम्परागत** रूप से आरक्षित क्षेत्र गठित किया गया है।

अपने क्षेत्र आरक्षण के संबंध में हरिनगर चीनी मिल के मुख्य महाप्रबंधक, **श्री एस० एल० बाहेती** द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल के लिए 49 ग्रामों का परम्परागत रूप से आरक्षित क्षेत्र पूर्व से गठित है। उनके चीनी मिल की दैनिक पेराई क्षमता 11,500 TCD है। मिल के साथ एक 120 KLPD की डिस्टीलरी एवं 14.5 MW क्षमता का सह-विद्युत उत्पादन इकाई भी स्थापित है। उन्होंने बताया कि पेराई सत्र 2022-23 के लिए उनके चीनी मिल का **Normal Cane Requirement (NCR)** 160.00 लाख क्विंटल निर्धारित हुआ है। श्री बाहेती द्वारा बताया गया कि उनकी चीनी मिल पहले चरण में 13000 टी.सी.डी. एवं दूसरे चरण में 15000 टी.सी.डी. तक क्षमता विस्तारित करने हेतु उनके प्रबंधन का लक्ष्य है। उन्होंने अपने मिल की पेराई हेतु ईख की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूर्व से आरक्षित होते आ रहे 49 ग्रामों को पुनः उनके पक्ष में परम्परागत रूप से आरक्षित करने हेतु अनुरोध किया।

सुनवाई के दौरान आरक्षण से संबंधित इस चीनी मिल द्वारा किये गये मांग पर किसी अन्य चीनी मिल द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी।

सुनवाई के दौरान किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का अध्ययन किया गया।

संयुक्त क्षेत्रीय विकास परिषद्, पश्चिम चम्पारण को विभागीय पत्रांक-1314 दिनांक-06.07.2022 एवं स्मार पत्र संख्या-1468 दिनांक-05.08.2022 के माध्यम से क्षेत्र आरक्षण के प्रस्ताव पर उनका मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु उनकी अनुशंसा विभाग को अबतक अप्राप्त है।

कार्यालय में संधारित अभिलेखों एवं मय नजरी नक्शा का भी अध्ययन किया गया। इस चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2021-22 का शत-प्रतिशत ईख मूल्य भुगतान कर दिया गया है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में संबंधित सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स **हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, पंचम्पारण** के पक्ष में **पेराई सत्र 2022-23 से 2026-27 तक** (पाँच वर्षों) के लिए राज्य के पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत 49 ग्रामों को जिसका विवरण संलग्न अनुसूची-“क” एवं “ख” में अंकित है, को परम्परागत रूप से आरक्षित किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धित
गिरिवर दयाल सिंह,
ईखायुक्त, बिहार।

आदेश से,
गिरिवर दयाल सिंह,
ईखायुक्त, बिहार।

पेराई सत्र 2022-23 से 2026-27 तक के लिए हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर पंचम्पारण को परम्परागत रूप में आरक्षित 49 ग्रामों की सूची:-

अनुसूची-“क”

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
पंचम्पारण	योगापट्टी	01.	पिपरपौती	395
		02.	भरतापट्टी	396
		03.	गरदहीया	397
		04.	ढढ़वा	399
		05.	पिपरहिया	400
	भितहौ	06.	पकड़ी	398

अनुसूची-“ख”

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
पंचम्पारण	चनपटिया	01.	कोकिलाडीह	2
		02.	सिन्दुरिया	3
		03.	भैसाही	5
		04.	नवगाँवा	53
		05.	गोईता टोला	54
		06.	लच्छू छापर	55
		07.	पोखरिया राय	56
		08.	पोखरिया खुर्द	57
		09.	पुरैना गोसाई	59
		10.	करनपट्टी	60
		11.	लगुनाहा	62
		12.	कुडवा मठिया	81
		13.	पटखौली	83
		14.	मिश्ररौली	84
		15.	सिसवनिया	85
		16.	पकड़ीहार	86
		17.	खरदेउर	87
		18.	मिसकार टोला	88
		19.	जियाछा टोला	89

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
		20.	चुहरी	90
		21.	पोखरिया बाबू	91
		22.	सिरिसिया	92
		23.	मुशहरी	93
		24.	सवेया टोला	94
		25.	सवेया खुर्द	95
		26.	बंदो पट्टी	96
		27.	तुरहा पट्टी	100
		28.	जिनवलिया	101
		29.	विश्वास	102
		30.	भारपटिया	103
		31.	पतरखा नौरंगिया	122
		32.	हीरा पाकड़	123
		33.	परसा	124
		34.	गुरवलिया विश्वास	125
		35.	गुरवलिया बंदोवस्ती	126
		36.	विशुनपुर	138
	बैरिया	37.	मथौली	139
		38.	भटवलिया	144
	लौरिया	39.	मौलानगर	483
		40.	परसौना	484
		41.	वृंदावन	485
	जोगापट्टी	42.	मिश्रौली	97
		43.	पटखौली	98

गिरिवर दयाल सिंह,
ईखायुक्त, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 616-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>